

शहरी अपराध आपदा प्रतिक्रिया

पृष्ठभूमि:

एफबीआई द्वारा संकलित [Uniform Crime Report](#) के आंकड़ों के अनुसार, 2008 के दौरान कोलंबिया जिले में प्रति 100,000 लोगों पर 1,437.7 हिंसक अपराध हुए हैं। इसी अवधि में प्रति 100,000 लोगों पर 5,104.6 संपत्ति अपराध रिपोर्ट किए गए। कुल मिलाकर, 1995 के बाद से कोलंबिया जिले के हिंसक अपराधों में 46% कमी आई है और इसी अवधि के दौरान संपत्ति अपराधों में 46.3% कमी देखी गई है।

शहरी अपराध की रोकथाम:

- खिड़कियाँ हमेशा बंद रखें, सभी दरवाज़ों पर ताला लगाएँ तथा वाहन को बिना रखवाली के छोड़ कर जाते समय मूल्यवान चीज़ें अपने साथ ले जाएँ या सीधी नज़रों से ओझल रखें।
- अपने घर पर हमेशा ताला लगाएँ, भले ही आप घर पर मौजूद हों या बाहर जाएँ।
- यदि आप शहर छोड़ कर जा रहे हैं, तो डाक और अखबारों का वितरण अस्थायी रूप से रोक दें या किसी को प्रतिदिन उन्हें उठाने का काम सौंपें।
- रात के समय अच्छी प्रकाश व्यवस्था वाले स्थानों में रहने की कोशिश करें तथा अंधेरी गलियों, प्रवेश द्वारा और गली के कोनों से बचने का प्रयास करें।
- दरवाज़े तक पहुँचने से पहले अपने हाथ में अपनी कार या घर की कुंजी थामें।
- अपने आस-पास के बारे में जागरूक रहें; निकटवर्ती पुलिस स्टेशन की अवस्थिति नोट करें।
- यदि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ऐसे लोगों से भवन में चर्चा न कभी करें जिन्हें आप नहीं जानते हैं।
- अपना मुख्य दरवाज़ा खोलने से पहले हमेशा निरीक्षण-छिद्र में से देखें। यदि आप नहीं जानते कि वह कौन है, तो दरवाज़ा न खोलें, भले ही आपने सुरक्षा साँकल लगाई हो।
- यदि कोई अप्रत्याशित वितरण या सेवा कॉल आपके दरवाज़े पर पहुँचती है, तो उनका नाम जानने और उनकी पहचान एवं अप्रत्याशित आगमन का कारण सत्यापित करने के लिए उनके नियोक्ता को कॉल करें।
- यदि घर पहुँचने पर आप दरवाज़ा या खिड़की खुला पाते हैं, तो प्रवेश न करें - तत्काल पुलिस को बुलाएँ।
- किसी डकैती के दौरान, याद रखें कि चुराई जाने वाली नकदी, गहने या मूल्यवान वस्तुओं की तुलना में आपका जीवन अमूल्य है।
- यदि आप किसी हिंसक अपराध के शिकार हुए हैं और घायल हो गए हैं, तो तत्काल चिकित्सा सहायता पाएँ।
- यदि यौन शोषण से पीड़ित हैं, तो सभी शारीरिक सबूत संरक्षित करें। कपड़े ना बदलें, नहाए-धोएँ नहीं, खाना-पीना या धूम्रपान, दाँत साफ़ करना या बाथरूम का उपयोग ना करें। कुछ भी ना फेंके, जब तक कि पुलिस या परामर्शदाता यह न कहे कि ऐसा करना ठीक है।
- यौन शोषण के शिकार लोगों को अपने डॉक्टर या नज़दीकी आपातकालीन कक्ष से तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। पीड़ितों को 9-1-1 पर पुलिस या 202-333-7273 पर D.C.रेप क्राइसिस सेंटर को भी



कोलम्बिया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट

निर्माता:

होमलैंड सेक्यूरिटी एंड एमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (HSEMA)

पिछला संशोधन: नवंबर, 2011



शहरी अपराध आपदा प्रतिक्रिया

कॉल करना चाहिए।

- यदि आपके वाहन की चोरी हुई है, तो तुरंत महानगरीय पुलिस विभाग को चोरी की रिपोर्ट करें। पुलिस को चुराए गए वाहन का निर्माण वर्ष, बनावट, मॉडल, रंग और VIN संख्या सूचित करें।



कोलम्बिया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट
निर्माता:
होमलैंड सेक्यूरिटी एंड एमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (HSEMA)

पिछला संशोधन: नवंबर, 2011

